



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 1981/पौष 25, 1902

No. 23] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 1981/PAUSA 25, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1981

का० आ० 27 (अ) —केंद्रीय सरकार ने कोयला श्रारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 133 (अ), तारीख 3 मार्च, 1980 द्वारा उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिसरों का भूमि अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में, अपनी रिपोर्टें केंद्रीय सरकार को वे दी है,

और केंद्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने तथा बिहार राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे सलग्न अनुसूची में वर्णित 701.87 एकड़ (लगभग) या 284.04 हेक्टर (लगभग) भूमि का अर्जन किया जाता चाहिये,

अतः केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 701.87 एकड़ (लगभग) या 284.04 हेक्टर (लगभग) भूमि का अर्जन किया जाता है।

2 इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त दुमका (बिहार) के कार्यालय या कोयला नियंत्रक के 1, कोसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता स्थित कार्यालय या निदेशक (निगम योजना और परियोजना) ईस्टर्न कोल-कोलहुम, सैक्टोरिया, डंकवर—दशरथ गढ़, जिला—बर्धमान (पाश्चिम बंगाल) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

खण्ड 'ख'

राजमहल को नफीरड

रेखाक सं० एल० प्रार/1908

तारीख 8-4-80

जिसे अंश की गई भूमि दर्शित है

उपप्लॉक ख-1, ख 2 और ख 3

सभी अधिकार

क्र० मोजा (ग्राम) सं०	धाना सं०	धाना	जिला	क्षेत्रफल	टिप्पण
1	2	3	4	5	6
1 जटाकुटी	28	बोरीजोर	सथाल परगना		भाग
			(बगला मिमरा 1)		
2 बागजोरी	29	बोरीजोर	सथाल परगना		"
			(बगला मिमरा 1)		
3 चितरफोटी	38	यथोक्त	यथोक्त		"
4 तिलगमा	39	यथोक्त	यथोक्त		"
5 दुभारी घाट तिलगमा	40	यथोक्त	यथोक्त		"
6 नीमाकला	41	यथोक्त	यथोक्त		"
7 डकैता	44	यथोक्त	यथोक्त		"
8 बागजोरी	552	महगमा	यथोक्त		"
9 बालचिनी	554	यथोक्त	यथोक्त		"
10 धनकुर्दा	697	यथोक्त	यथोक्त		"
11 समोधा	698	यथोक्त	यथोक्त		"
12 गहिराफाटा	699	यथोक्त	यथोक्त		पूर्ण
13 मुहगमा	700	यथोक्त	यथोक्त		भाग
14 भड़ियाफाटा	701	यथोक्त	यथोक्त		पूर्ण
15 गरबाघाट	702	महगमा	यथोक्त		भाग
16 अकासनी	705	यथोक्त	यथोक्त		"
17 केन्दुभा फाटा	706	यथोक्त	यथोक्त		"

कुल क्षेत्र 701 87 एकड़ (लगभग)

या 284 04 हेक्टर (लगभग)

1 मोजा जटाकुटी में अंशित किए गए प्लॉटों के संख्यांक -

657 (भाग), 658, 659, 660, 661, 662, 663 (भाग), 679 (भाग), 680, 681, 682 (भाग), 683 (भाग), 687 (भाग), 688, (भाग), 689, 690, 691, 692 और 557/693 (भाग)।

2 मोजा बागजोरी में अंशित किए गए प्लॉटों के संख्यांक

11 (भाग), 12 (भाग), 13 (भाग), 14 (भाग), 16 (भाग), 17, 18, 19 (भाग), 23 (भाग), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, और 51,

3 मोजा चितरफोटी में अंशित किए गए प्लॉटों के संख्यांक -

5 (भाग), 6 (भाग), 7 (भाग), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, (भाग), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (भाग), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 104 (भाग), 187, 214, 215, 216, 217, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 255, 256, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 (भाग), 276 (भाग), 277 (भाग), 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 313 (भाग), 315 (भाग), 338 (भाग), 339 (भाग), 340 (भाग), 348 (भाग), 349, (भाग), 361 (भाग), 367 (भाग), 368 (भाग), 396 (भाग), 397 (भाग), 399 (भाग), 400 (भाग), 405, (भाग), 406 (भाग), 407, 414 (भाग), 417 (भाग), और 423 (भाग),

4 मोजा तिलगमा में अंशित किए गए प्लॉटों के संख्यांक - 142 (भाग), 143 (भाग), 144, 145, 146, 147, 148 (भाग), 149 (भाग), 441 (भाग), 442 (भाग), 459, 470, 471, 172 (भाग), 472/942, 473, 174, 475, 476, 477, 478, 479 (भाग), 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 189, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 478, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 591, 594, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 627, 628, 629, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 667/949, 664/947, 664/948, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710 (भाग), 711 (भाग), 712 (भाग), 713 (भाग), 714, 715, 716, 717/939, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 801, 803, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 935, 936, 937, और 938।

5 मोजा दुभारी घाट तिलगमा में अंशित किए गए प्लॉटों के संख्यांक - 210, 211, 212, 213, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 340, 326, 327, 328, 346, 349 (पी), 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375।

6 मोजा नीमाकला में अंशित किए गए प्लॉटों के संख्यांक - 125 (पी), 127, 128 (पी), 129 (पी), 130 (पी), 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159 (पी), 160 (पी), 165 (पी), 166, 167, 168 (पी), 169 (पी), 170 (पी), 171 (पी), 172 (पी), 581 (पी), 582 (पी), 583 (पी), 584 (पी), 585, 586, 587, 588, 589/759, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598 (पी), 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618 (पी), 919, 620 (पी), 621 (पी), 625 (पी), 626 (पी), 698 (पी), 713 (पी),

714, 715(पी), 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727(पी), 728, 729, 730, 731, 732(पी), 733, 734, 735(पी), 736(पी), और 737 (पी) ।

7. मौजा डकैना में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक :- 16(पी), 17(पी), 18(पी), 19(पी), 20, 21, 22, 23, 24(पी), 25(पी), 27(पी), 28(पी), 56(पी), 348(पी) और 349 (पी) ।

8. मौजा बागजोरी में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक :- 50(पी), 51(पी), 52, 53, 91(पी), 97(पी), 98(पी) और 261 ।

9. मौजा बालचिनी में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक :- 186, 187, 188, 190, 191, 192(पी), 195(पी), 196(पी), 324(पी), 325(पी), 326(पी), 327(पी), 328, 329, 330, 331, 335(पी), 453(पी), 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 और 521 ।

10. मौजा धनकुटी में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक :- 22(पी), 23(पी), 24, 25(पी), 26(पी), 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33(पी), 34(पी), 100(पी), 101(पी), 101/135, 109(पी), 115 (पी), 116(पी), 117, 118, 119, 120, 120/136, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127/134, 128 और 129 ।

11. मौजा मसोसा में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक :- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 और 14 ।

12. मौजा गहिराफटा में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक :- 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ।

13. मौजा मलगमा में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक :- 73(पी), 78(पी), 79(पी), 80(पी), 81(पी), 82(पी), 96(पी), 98(पी), 100(पी), 101, 102, 103, 104(पी), 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124/1236, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 133/1192, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176(पी), 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 257, 258, 264, 265, 266, 267, 1136, 1137, 1138 और 1139 ।

14. मौजा गहिराफटा में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक :- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ।

15. मौजा गन्दाघाट में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक :- 1(पी), 2(पी), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ।

16. मौजा अकासनी में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक :- 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (पी), 21 (पी), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (पी), 29, 30 (पी), 31 (पी), 32 (पी), 62 (पी), 63 (पी), 64 और 65 ।

17. मौजा केन्दुघाटिका में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक :- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (पी) और 8 (पी) ।

उप ब्लाक-ख I

सीमा वर्णन

क-ख रेखा मौजा डकैना के प्लॉट संख्यांक 349, 348, 56, 25, 23, 24, 28, 27, 18, 19, 17 और 16 के बीच से होकर मौजा नीमा कलां के 727 के बीच से होकर मौजा तेलगमा के 441, 442, और 472 के बीच से होकर जाती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है ।

ख-ग रेखा मौजा तेलगमा के प्लॉट संख्यांक 472, 471 की पश्चिमी सीमा 470, 459 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा, 479 के बीच से होकर 531 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा 538, 537 की उत्तरी सीमा, 537, 544 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ मौजा दोरीघाट के 363, 364 की उत्तरी सीमा, 365 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा, 366, 370 की उत्तरी सीमा, 346 की पूर्वी उत्तरी और पश्चिमी सीमा, 349 के बीच से होकर, 327 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु 'ग' पर मिलती है ।

ग-घ रेखा मौजा तेलगमा के प्लॉट संख्यांक 651 की पश्चिमी सीमा, 655, 656, 657, 660, 664/948, 664/947, 675 की उत्तरी सीमा, 667/949 की पूर्वी सीमा 668 की उत्तरी सीमा के साथ साथ मौजा दोरीघाट तेलगमा के 238, 239, 240, 222 की पूर्वी सीमा, 213, 210 की पूर्वी और उत्तरी सीमा, तेलगमा और दोरीघाट तेलगमा की सांझी सीमा के साथ-साथ मौजा तेलगमा के 148 के बीच से होकर मौजा तेलगमा के 147 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है ।

घ-ङ रेखा मौजा तेलगमा के प्लॉट संख्यांक 149, 143, 142, 710, 713, 712, 711 के बीच से होकर मौजा चितरकोटी के 5, 6, 7, 17, 18, 39 के बीच से होकर मौजा जटाकुटी के 557/693, 657, 663, 688, 687, 683, 682, 679 के बीच से होकर, मौजा बगजोरी (29) के 23, 19, 16, 14, 13, 12, 11 के बीच से होकर मौजा बागजोरी (552) के 51, 50, 97 और 98 के बीच से होकर जाती है और बिन्दु 'ङ' पर मिलती है ।

ङ-च रेखा मौजा बागजोरी (552) के 98, 97 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ 91, के बीच से होकर, 91 की पूर्वी और दक्षिणी सीमा 53 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ मौजा बागजोरी (29) के 49, 42 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ 39 की पश्चिमी दक्षिणी और उत्तरी सीमा, 37 की दक्षिणी और पूर्वी सीमा, 36, की पूर्वी सीमा, बगजोरी (29) और चितरकोटी की सांझी सीमा, के साथ-साथ मौजा चितरकोटी के 85, 86, 89, 90, 108 की दक्षिणी सीमा, 108, 104, 102 की पूर्वी सीमा, प्लॉट संख्यांक 99 और 100, 99 और 140, 99 और 72 के बीच सांझी सीमा के साथ साथ 72 की पश्चिमी और उत्तरी सीमा, 140 के बीच से होकर, 205 और 206 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ, 213 की पश्चिमी और उत्तरी सीमा, 217 की पूर्वी और उत्तरी सीमा, 229 की पूर्वी सीमा, 227, 226 की दक्षिणी सीमा,

- 225, 224 की दक्षिणी और पूर्वी सीमा, 239 और 261, 250 और 261, 250 और 251 की साझी सीमा, मौजा चितरकोटी और तेलगमा की साझी सीमा के साथ-साथ, मौजा तेलगमा के प्लाट संख्यांक 736 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है ।
- च-छ रेखा मौजा तेलगमा के प्लाट संख्यांक 745, 742, 741 740 की उत्तरी सीमा, 739 की उत्तरी और पूर्वी सीमा, 760, 761 की पश्चिमी सीमा, मौजा तेलगमा, और चितरकोटी के बीच साझी सीमा के साथ-साथ मौजा चितरकोटी के 255, 256, 259, 260 की पश्चिमी सीमा, 260, 264 की दक्षिणी सीमा, 263 की पश्चिमी सीमा, 187 की उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा, 267 की पश्चिमी सीमा और दक्षिणी सीमा, 268 की पश्चिमी सीमा, 182 और 338 के बीच साझी सीमा, 339 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा, 240, 348, 349, 361, 367, 368 की पश्चिमी सीमा, 405 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा, 406, 407 की पश्चिमी सीमा, 399 की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा, 397, 414, 417 और 423 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'छ' पर मिलती है ।
- छ-ज रेखा मौजा चितरकोटी के प्लाट संख्यांक 423, 417, 414, 397, 396, 400, 406, 405, 368, 367, 361, 349, 348, 340 के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ज' पर मिलती है ।
- ज-झ रेखा मौजा चितरकोटी के प्लाट संख्यांक 339, 338, 273, 276, 278, 277, 315, और 313 के बीच से होकर जाती है और बिन्दु 'झ' पर मिलती है ।
- झ-ञ रेखा मौजा चितरकोटी के प्लाट संख्यांक 314 की दक्षिणी सीमा के साथ साथ, 231, 236, 287 की पूर्वी सीमा, मौजा चितरकोटी और तेलगमा की साझी सीमा के साथ-साथ मौजा तेलगमा के प्लाट संख्यांक 768 की पूर्वी और उत्तरी सीमा, 769, 771 की पूर्वी सीमा, 772, 801, 803 की दक्षिणी और पूर्वी सीमा के साथ-साथ 918 के बीच से होकर 918 की उत्तरी सीमा, 642 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ञ' मिलती है ।
- झ-ट रेखा मौजा तेलगमा के प्लाट संख्यांक 640, 635 की दक्षिणी सीमा के 633 की दक्षिणी और पूर्वी सीमा, 629 की दक्षिणी सीमा, 627 की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा, 624, 617, 614, 607 की दक्षिणी सीमा, 605 की पश्चिमी दक्षिणी और पूर्वी सीमा 596, 594, 591, 589 की दक्षिणी सीमा, के साथ-साथ 349 के बीच से होकर 919, 920, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 935 और 936 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ट' पर मिलती है ।
- ट-ठ रेखा मौजा नीमाकला के प्लाट संख्यांक 155 की दक्षिणी सीमा, 133, 131, 130, 128 की पश्चिमी सीमा 127 की उत्तरी सीमा, 125 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ठ' पर मिलती है ।
- ठ-ड रेखा मौजा नीमाकला के प्लाट संख्यांक 125, 128, 129, 130, 170, 169, 171, 168, 172, 165, 160, 159, 581, 582, 583, 584, 598, 621, 625, 620, 626, 698, 618, 713, 737, 715, 735, 736 और 732 में से होकर जाती है और बिन्दु 'ड' पर मिलती है ।
- ड-क रेखा मौजा लालमटिया और नीमाकला की साझी सीमा के साथ-साथ, मौजा लालमटिया के प्लाट संख्यांक 24 के बीच से होकर मौजा डकैता के 23 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ 25, 56, और 39 के बीच से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है ।
- उपप्लाक-ख 2**
सीमा-वर्णन :
- क-क2 रेखा मौजा बालाचिनी के प्लाट संख्यांक 383 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ 335 के बीच से होकर, 453 की उत्तरी और दक्षिणी सीमा के साथ-साथ, 452, 451, की पूर्वी सीमा, 521 की पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी सीमा, 520, 517 की दक्षिणी सीमा के और मौजा अकारनी के 1 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'क 2' पर मिलती है ।
- क2-क3 रेखा मौजा अकासनी के प्लाट संख्यांक 4 की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा, 64 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'क 3' पर मिलती है ।
- क3-क4 रेखा मौजा अकासनी के प्लाट संख्यांक 64 की पूर्वी सीमा, 63 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ, 63, 32, 31, 30, 21, 16 के बीच से होकर मौजा कंदुघा-किटा के साथ और भाउ के बीच से होकर जाती है और बिन्दु 'क 4' पर मिलती है ।
- क4-क5 रेखा मौजा कंदुघा और कंदुघा-किटा के बीच साझी सीमा के बीच से होकर मौजा बागजोरी (552) के प्लाट संख्यांक 261 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ मौजा बालाचिनी के प्लाट संख्यांक 508 की उत्तरी सीमा 509 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा, 511, 436 की उत्तरी सीमा, 487, 488 की पश्चिमी सीमा, 335 की दक्षिणी सीमा, 335 के बीच से होकर, 331 की पूर्वी सीमा, 583 के बीच से होकर 186 की पूर्वी और उत्तरी सीमा 187, 188, की उत्तरी सीमा, 190 की पूर्वी और उत्तरी सीमा, 196 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'क 5' पर मिलती है ।
- क5-क6 रेखा मौजा बालाचिनी के प्लाट संख्यांक 195, 192, 327, 326, 325, 324, के बीच से होकर 335 के बीच से होकर जाती है और बिन्दु 'क 1' पर मिलती है ।
- उपप्लाक-ख 3**
सीमा-वर्णन :
- क6-क7 रेखा मौजा गरबाघाट के प्लाट संख्यांक 1 और 2 के बीच से होकर, मौजा महगमा के 104, 96, 98, 100, 82, 80, 81, 79, 78, और 73 के बीच से होकर जाती है और बिन्दु 'क 7' पर मिलती है ।
- क7-क8 रेखा मौजा महगमा के प्लाट संख्यांक 73 की पश्चिमी सीमा, 129 की पश्चिमी दक्षिणी और पूर्वी सीमा के भडियाकिटा और महगमा की साझी सीमा मौजा महगमा के 267 और 264 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'क 8' पर मिलती है ।

क8-क9 रेखा मौजा महगमा के प्लॉट संख्यांक 264, 251 की दक्षिणी सीमा, 259 की पूर्वी सीमा, 257 की दक्षिणी सीमा, 255, 253 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ 251 के बीच से होकर 1136, 1137, 1139 को पूर्वी सीमा, 225, 224, 221 की दक्षिणी सीमा, 220 की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'क 9' पर मिलती है।

क9-क10 रेखा मौजा महगमा के प्लॉट संख्यांक 220, 218, 219 की पूर्वी सीमा, 208 की दक्षिणी सीमा और पूर्वी सीमा 209 को पूर्वी सीमा के साथ-साथ मौजा मझोआ और महगमा के बीच सांझी सीमा के साथ-साथ मौजा मझोआ के प्लॉट संख्यांक 11 और 8 की पूर्वी सीमा के साथ 12 के बीच से होकर 13 की दक्षिणी सीमा मौजा महगमा और मझोआ के बीच मौजा मझोआ और गहिराकिटा के बीच सांझी के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'क 10' पर मिलती है।

क10-क11 रेखा मौजा मझोआ और धनकुर्दा, धनकुर्दा और महगमा के बीच सांझी सीमा के साथ-साथ मौजा धनकुर्दा के 132 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'क 11' पर मिलती है।

क11-क12 रेखा मौजा धनकुर्दा के प्लॉट संख्यांक 115, 116, 109, 100, 101, 34, 33, 26, 25, 23, 22 के बीच से होकर और मौजा महगमा के 176 के बीच से होकर जाती है और बिन्दु 'क 12' पर मिलती है।

क12-क6 रेखा मौजा महगमा के प्लॉट संख्यांक 177, 173 की उत्तरी सीमा, मौजा महगमा और कुममाहा सीमा के बीच सांझी महगमा और बालाचिनी किटा, बालाचिनी और महगमा, बालाचिनी और गरबाघाट, गरबाकिटा और गरबाघाट के बीच सांझी सीमा के साथ-साथ जाती है और आरम्भिक बिन्दु 'क 6' पर मिलती है।

[सं० 19 (25)/80-सी एन]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 15th January, 1981

S.O. 27(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 133 (E) dated the 3rd March, 1980 under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid, and, after consulting the Government of Bihar, is satisfied that the lands measuring 701.87 acres (approximately) or 284.04 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 701.87 acres (approximately) or 284.04 hectares (approximately) described in the said Schedule are hereby acquired.

2. The Plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Dumka (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Director (Corporate Planning and Projects), Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office—Dishergarh, District—Burdwan (West Bengal).

SCHEDULE

BLOCK 'B'

RAJMAHAL COALFIELD

SUB BLOCK—B1 B2 & B3.

Drawing No. LR/1908

Dated : 8-4-1980

(showing lands acquired)

All rights

Sl. Mouza No. (Village)	Thana No.	Police Station (Thana)	District Area	Remarks
1. Jatakuti	28	Boarijor (Bungalow (Simra-I)	Santhal Pargana	Part Part
2. Bagjori	29	-do-	-do-	Part
3. Chitarkoti	38	-do-	-do-	Part
4. Telgama	39	-do-	-do-	Part
5. Duarighat Telgama	40	-do-	-do-	Part
6. Nima Kalan	41	-do-	-do-	Part
7. Dakaite	44	-do-	-do-	Part
8. Bagjori	552	Mahagama	-do-	Part
9. Balachini	554	-do-	-do-	Part
10. Dhankurda	697	-do-	-do-	Part
11. Majhoua	698	-do-	-do-	Part
12. Gahirakita	699	-do-	-do-	Full
13. Mahagama	700	-do-	-do-	Part
14. Bhadiakita	701	-do-	-do-	Full
15. Garbaghat	702	-do-	-do-	Part
16. Akasni	705	-do-	-do-	Part
17. Kenduakita	706	-do-	-do-	Part

Total area —701.87 acres

(approximately)

or —284.04 hectares

(approximately)

1. Plot numbers acquired in mouza Jatakuti : 657(P), 658, 659, 660, 661, 662, 663(P), 679(P), 680, 681, 682(P), 683 (P), 687(P), 688(P), 689, 690, 691, 692 and 557/693(P).

2. Plot numbers acquired in mouza Bagjori : 11(P), 12(P), 13(P), 14(P), 16(P), 17, 18, 19(P), 23(P), 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39(P), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 140 (P), 187, 214, 215, 216, 217, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 255, 256, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273(P), 276(P), 277(P), 278, 279, 280

11. Plot numbers acquired in mouza Majhoua : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 and 14.

mouza Bagjori (552), along southern boundary of 49, 42, western, southern and eastern boundary of 39, southern and eastern boundary of 37, eastern boundary of 36 of mouza Bagjori (29) along the common boundary between Bagjori (29) and Chitarkoti, southern boundary of 85, 86, 89, 90, 108, eastern boundary of 108, 104, 102, common boundary between plot Nos. 99 and 100, 99 and 140, 99 and 72, along western and northern boundary of 72, through 140, along northern boundary of 205 and 206, western and northern boundary of 213, eastern and northern boundary of 217, eastern boundary of 229, southern boundary of 227, 226, southern and eastern boundary of 225, 224, common boundary between 239 and 261, 250 and 261, 250 and 251 of mouza Chitarkoti, along common boundary between mouzas Chitarkoti and Telgama, along eastern boundary of plot no. 726 of mouza Telgama and meets at point 'F'.

F—G . Line passes along the northern boundary of plot Nos. 745, 742, 741, 740, northern and eastern boundary of 739, western boundary of 760, 761 of mouza Telgama, along common boundary between mouzas Telgama and Chitarkoti, western boundary of 255, 256, 259, 260 southern boundary of 260, 264, western boundary of 263, northern, western and southern boundary of 187, western and southern boundary of 267, western boundary of 268, common boundary between 182 and 338, northern and western boundary of 339, western boundary of 240, 348, 349, 361, 367, 368, northern and western boundary of 405, western boundary of 406, 407, western and southern boundary of 399, western boundary of 397, 414, 417 and 423 of mouza Chitarkoti and meets at point 'G'.

G—H . Line passes through plot numbers 423, 417, 414, 397, 396, 400, 406, 405, 368, 367, 361, 349, 348, 340 of mouza Chitarkoti and meets at point 'H'.

H—I . Line passes through plot numbers 339, 338, 273, 276, 278, 277, 315 and 313 of mouza Chitarkoti and meets at point 'I'.

I—J . Line passes along southern boundary of Plot No. 314, eastern boundary of 281, 286, 287 of mouza Chitarkoti, along common boundary between mouzas Chitarkoti and Telgama, along eastern and northern boundary of plot no. 768, eastern boundary of 769, 771, southern and eastern boundary of 772, 801, 803, through 918, along northern boundary of 918, eastern boundary of 642 of mouza Telgama and meets at point 'J'.

J—K . Line passes along southern boundary of plot numbers 640, 635, southern and eastern boundary of 633, southern boundary of 629, western and southern boundary of 627, southern boundary of 624, 617, 614, 607, western, southern and eastern boundary of 605, southern boundary of 596, 594, 591, 589, through 349, along southern boundary of 919, 920, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 935 and 936 of mouza Telgama and meets at point 'K'.

K—L . Line passes along the southern boundary of plot numbers 155, western boundary of 133, 131, 130,

128, northern boundary of 127, northern and western boundary of 125 of mouza Nima Kalan and meets at point 'L'.

L—M . Line passes through plot numbers 125, 128, 129, 130, 170, 169, 171, 168, 172, 165, 160, 159, 581, 582, 583, 584, 598, 621, 625, 620, 626, 698, 618, 713, 737, 715, 735, 736 and 732 of mouza Nima Kalan and meets at point 'M'.

M—A . Line passes along the common boundary between mouzas Lalmatia and Nima Kalan, through plot No. 24 of mouza Lalmatia, along southern boundary of 23, through 25, 56 and 349 of mouza Dakaita and meets at the starting point 'A'.

SUB-BLOCK—B2

BOUNDARY DESCRIPTION :

A1—A2 Line passes along the northern boundary of plot No. 383, through 335, along northern and eastern boundary of 453, eastern boundary of 452, 451, western, southern and eastern boundary of 521, southern boundary of 520, 517 of mouza Balachini, southern boundary of 1 of mouza Akasni and meets at point 'A2'.

A2—A3 Line passes along western and southern boundary of plot No. 4, southern boundary of 64 of mouza Akasni and meets at point 'A3'.

A3—A4 Line passes along the eastern boundary of plot No. 64, southern boundary of 63, through 63, 32, 31, 30, 21, 16 of mouza Akasni, through 7 and 8 of mouza Kenduakita and meets at point 'A4'.

A4—A5 Line passes through common boundary between mouzas Kendua and Kenduakita along northern boundary of plot No. 261 of mouza Bagjori (552), along northern boundary of plot No. 508, northern and western boundary of 509, northern boundary of 511, 486, western boundary of 487, 488, southern boundary of 335, through 335 eastern boundary of 331, through 583, eastern and northern boundary of 186, northern boundary of 187, 188, eastern and northern boundary of 190, northern boundary of 196 of mouza Balachini and meets at point 'A5'.

A5—A1 Line passes through plot numbers 195, 192, 327, 326, 325, 324, through 335 of mouza Balachini and meets at the starting point 'A1'.

SUB BLOCK—B3

BOUNDARY DESCRIPTION :

A6—A7 Line passes through plot Nos. 1 and 2 of mouza Garba ghat, through 104, 96, 98, 100, 82, 80, 81, 79, 78 and 73 of mouza Mahagama and meets at point 'A7'.

A7—A8 Line passes along western boundary of plot No. 73, western, southern and eastern boundary of 129 of mouza Mahagama, common boundary between Bhadiakita and Mahagama, western boundary of 267 and 264 of mouza Mahagama and meets at point 'A8'.

A8—A9 Line passes along southern boundary of plot nos. 264, 251, eastern boundary of 259, southern boundary of 257, northern boundary of 255, 253, through 251, along eastern boundary of 1136, 1137, 1139, southern boundary of 225, 224, 221, western and southern boundary of 220 of mouza Mahagama and meets at point 'A9'.

A9—A10 Line passes along eastern boundary of plot numbers 220, 218, 219, southern and eastern boundary of 208, eastern boundary of 209 of mouza Mahagama, along common boundary between mouzas Majhoua and Mahagama, along eastern boundary of plot nos. 11 and 8, through 12 along southern boundary of 13 of mouza Majhoua, along common boundary between mouzas Mahagama and Majhoua, between mouzas Majhoua and Gahirakita and meets at point 'A10'.

A10—A11 Line passes along the common boundary between mouzas Majhoua and Dhankurda, between mouzas Dhankurda and Mahagama, along northern boundary of 132 of mouza Dhankurda and meets at point 'A11'.

A11—A12 Line passes through plot numbers 115, 116, 109, 100, 101, 34, 33, 26, 25, 23, 22 of mouza Dhankurda and through 176 of mouza Mahagama and meets at point 'A12'.

A12—A6 Line passes along northern boundary of plot numbers 177, 173 of mouza Mahagama, along common boundary between mouzas Mahagama and Kusmaha, between Mahagama and Balachinikita, between Balachini and Mahagama, between Balachini and Garbaghat, between Garbakita and Garbaghat and meets at the starting point 'A6'.

[No. 19(25)/80-CL]

का० खा० 28(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कायला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कायला विभाग) की अधिसूचना सं० का० खा० 134(अ), तारीख 3 मार्च, 1980 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार को दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट, पर विचार करने तथा बिहार राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 1230 एकड़ (लगभग) या 497.76 हेक्टर (लगभग) भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 1230 एकड़ (लगभग) या 497.76 हेक्टर (लगभग) भूमि का अर्जन किया जाता है।

2 इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण जगजुक्त, हुसका (बिहार) के कार्यालय या कायला निरीक्षक के 1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता स्थित कार्यालय या निरीक्षक (विभाग योजना और परियोजना) हेल्थरन कोल-फील्ड्स निमिटेड, सैक्टोरिया, डाकघर-विजेर गंज, जिला बरवान, (पश्चिम बंगाल) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

ब्लॉक 'क'

राजमहल कायला क्षेत्र

उप-ब्लॉक—क

रेखांक सं०

तारीख

(जिसमें अर्जित की गई भूमि दर्शित है)

क्रम सं०	मौजा (ग्राम)	वाता सं०	पुंजिम स्टेशन (धाना)	जिला	क्षेत्रफल	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7
1.	केन्दुप्रा	30	बोरीजोर (बंगला परगना सिमरा 1)	संथाल		भाग
2.	तेतारिया	31	"	"		"
3.	बडा सिमरा	33	"	"		"
4.	छोटा सिमरा	34	"	"		"
5.	घाट सिमरा	35	"	"		"
6.	सुप्रारमरी	36	"	"		"
7.	घाट नीमा	37	"	"		"
8.	चितर कोटी	38	"	"		"
9.	नीमा कला	41	"	"		"
10.	हिंजुकिटा	42	"	"		"
11.	छालमटिया	43	"	"		"
12.	धानिकुंठा	697	महुगामा	"		"
13.	महुगामा	700	"	"		"
14.	अकासनी	705	"	"		"
15.	केन्दुशा किटा	706,707	"	"		"
16.	तेतारिया	709	"	"		"
17.	लाकराबंक	710	"	"		पूर्ण
18.	बलियाघाट	711	"	"		"
19.	बलिया कुरमीकिटा	712	"	"		भाग
20.	रबियाडोह (सताली)	713	"	"		"

कुल क्षेत्र : 1230 एकड़ (लगभग)

या 497.76 हेक्टर (लगभग)

1. मौजा केन्दुप्रा में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38/220, 38/221, 38/222, 39, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 और 81.

2. मौजा तेतारिया में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक : 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74/268, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 90/265, 90/266, 91, 94, 109 (भाग), 139, 140, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 218/267, 219, 220, 221, 222, 223, 224,

225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 और 264.

3. मौजा बदा सीधरा में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक:—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 339/1045, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, (भाग), 434, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 678, 679, 683, 684, 687(भाग), 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 922/1047, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 950, 951, 952, 953, 972, 973, 974, 975, 976, 978, 979, 980, 981, 981/1043, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 1197 GI/80—2

993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1033, 1034, 1035, और 1036.

4. मौजा छोटा सिमरा में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक:—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 123, 124, 125, 126, 127, 135, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 165, 166, 169, 170, 172, 173, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198(भाग), 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 364, 365, 366, 367, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 472, 473, 474, 475, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 552, 553, 660, 661, 693 और 694.

5. मौजा बाट सिमरा में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक:—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/148, 29/154, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/152, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 66, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 और 142.

6. मौजा सुधारमरी में अर्जित किए गए प्लॉटों के संख्यांक:—1(पी), 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,

234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 और 281.

7 मौजा घाट नीमा मे अजित किए गए प्लाटो के संख्याक--8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/128, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127 और 128(पी).

8 मौजा चितरकोटी मे अजित किए गए प्लाटो के संख्याक -
273(पी), 274, 275, 276(पी), 277(पी), 278(पी), 315(पी)
328, 329(पी), 334, 334/449, 335, 336, 337, 338(पी),
339(पी), 340(पी), 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348(पी), 349(पी), 361(पी), 367(पी), 368(पी), 369,
370, 371, 372, 373, 374, 375, 376/448, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396(पी), 397(पी),
400(पी), 401, 402, 403, 404, 405(पी), 406(पी),
414(पी), 415, 416, 417(पी), 423(पी), 424, 425, 426, 427,
428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 और 446

9. मौजा नीमा कला मे अजित किए गए प्लाटो के संख्याक --13,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90 (पी), 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 125 (पी), 126,
128 (पी), 128/756, 129 (पी), 130 (पी), 159 (पी), 160
(पी), 161, 162, 163, 164, 165 (पी), 168 (पी), 169 (पी),
170 (पी), 171 (पी), 172 (पी), 173, 174, 175, 176,
177, 178 (पी), 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 260, 262, 263, 265, 266, 271,
275, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 290, 291, 292, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326,
339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
348/757, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 358, 364 (पी), 398 (पी), 401, 402, 403, 404,
409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433,
434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443,
444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453,
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465,
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 478, 479, 480,
481, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491,
492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501,

502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511,
512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531,
532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541,
542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551,
552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561,
562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570,
571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579,
580, 581 (पी), 582, (पी), 583(पी), 584 (पी), 598 (पी),
618 (पी), 620 (पी), 621 (पी), 622, 623, 624,
625 (पी), 626 (पी), 627, 628, 629, 630, 631
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641,
642, 643, 644, 645, 646, 646/760, 647, 648, 649,
650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660,
661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670,
671, 672, 673, 674, 674/755, 675, 676, 677, 678, 679,
680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 686/762, 687,
688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697,
698 (पी), 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706,
707, 708, 709, 710, 711, 712, 713 (पी), 715 (पी),
732 (पी), 735 (पी), 736 (पी), 737 (पी), 738, 739,
740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749,
750, 752 और 753 ।

10 मौजा हिरूकटा मे अजित किए गए प्लाटो के संख्याक --152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 164 /607, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367,
368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377,
378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387,
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417,
424, 426, 427, 428, 429, 432, 433, 434, 435, 436,
437, 438, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457,
458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487,
488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497,
498, 498/608, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 508,
509, 510, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 522,
523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532,

533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, और 606

11. मौजा लालमटिया में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक :- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 98, 101, और 102 ।

12. मौजा धनकुर्वा में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक :- 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (पी), 23 (पी), 25 (पी), 26 (पी), 33 (पी), 34 (पी), 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 (पी), 101 (पी), 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 (पी), 110, 111, 112, 113, 114, 115 (पी) और 116 (पी)

13. मौजा महागामा में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक :- 176 (भाग) ।

14. मौजा अकामनी में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक :- 16 (पी), 17, 18, 19, 20, 21 (पी), 30 (पी), 31 (पी), 32 (पी), 33, 34, 35, 36, 37 और 63 (पी) ।

15. मौजा केतुभाकिटा में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक :- 7 (भाग) और 8 (भाग) ।

16. मौजा तेनारिया में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक :- 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 (पी), 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, और 225.

17. मौजा लाकराबक में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक :- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44.

18. मौजा बालियाघाट में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक :- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18.

19. मौजा बलिया कुमिकटा में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक :- 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 और 115.

20. मौजा रबियाडीह (संताली) में अर्जित किए गए प्लाटों के संख्यांक :- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 184 (पी), 194 और 195.

क-ख रेखा मौजा तनारिया और पहाड़पुर तनारिया और छोटा मिमरा के बीच साझी सीमा के साथ-साथ मौजा छोटा मिमरा के प्लाट संख्यांक 694 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है ।

ख-ग रेखा मौजा छोटा मिमरा के प्लाट संख्यांक 661 की दक्षिणी सीमा, प्लाट संख्यांक 1036 की दक्षिणी सीमा, प्लाट संख्यांक 1034 और 1033 की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा, 1035 की दक्षिणी सीमा, 1026 की दक्षिणी और पूर्वी सीमा, 1028 की पूर्वी सीमा, 1024 और 1027 की पश्चिमी सीमा, 1025 की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा, 978 की दक्षिणी और पूर्वी सीमा, 979 की पूर्वी सीमा, 976 की दक्षिणी और पूर्वी सीमा, 972, 975, 938 की दक्षिणी सीमा, मौजा बड़ा मिमरा के 953 और 950 की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा से होकर जाती है और बिन्दु 'ग' पर मिलती है ।

ग-घ रेखा प्लाट संख्यांक 948 की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा, 686 की दक्षिणी सीमा, के साथ-साथ 687 से होकर 947, 946, 84, 848, 847, 845 की पूर्वी 683, 679, की पूर्वी सीमा, 678, 499 की पूर्वी और उत्तरी सीमा, 498, 501, 502 और 493 की उत्तरी सीमा, 505 की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा, 506 की पश्चिमी सीमा, 489, 488, 486 की उत्तरी सीमा, 462 की पूर्वी और उत्तरी सीमा, 453, 437, 439 की पूर्वी सीमा, 434 की पूर्वी और उत्तरी सीमा, 443 की पूर्वी सीमा, 425 के धार-धार, 424 की पूर्वी सीमा, 570 की दक्षिणी और पूर्वी सीमा, 416, 414, 415, 412, 347, 349, 350, 351 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ मौजा हिजुकिटा और बड़ा मिमरा की साझी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है ।

घ-ङ रेखा मौजा हिजुकिटा और रंगमाटिया, रंगमाटिया और लालमाटिया की साझी सीमा के साथ-साथ मौजा लालमाटिया के प्लाट संख्यांक 77 की दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी सीमा के साथ-साथ फिर मौजा लालमाटिया और रंगमाटिया के बीच साझी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ङ' पर मिलती है ।

ङ-च रेखा प्लाट संख्यांक 76 की दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी सीमा के साथ-साथ 8 की पूर्वी सीमा 8 के बीच से होकर मौजा लालमाटिया के 8 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ, मौजा लालमाटिया और नीमा कला की साझी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'च' पर मिलती है ।

च-छ रेखा मौजा नीमा कला के प्लाट संख्यांक 732, 736, 735, 715, 737, 713, 618, 698, 626, 620, 625, 621, 598, 584, 583, 582, 581, 159, 160, 165, 172, 168, 171, 169, 170, 130, 129, 128 और 129 से लेकर जाती है और बिन्दु 'छ' पर मिलती है ।

ख-ज	रेखा मौजा नीमाकला के प्लाट संख्यांक 125 की पश्चिमी सीमा, 118 की उत्तरी सीमा, 117 की उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा, 115 की पश्चिमी सीमा, 13 की उत्तरी सीमा, 13, 114, 113, 112, 111 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ, मौजा घाटनीमा के 8, 10 की पश्चिमी सीमा और 13 की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा, 128, 16, 19 की पश्चिमी सीमा, 129 के बीच से होकर 20, 21 की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा और 85 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ज' पर मिलती है।			सीमा, 364, 366 की पश्चिमी सीमा, 391 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा 390 की पश्चिमी सीमा, 389 की उत्तरी सीमा, 377 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा, 378 की उत्तरी सीमा के साथ साथ जाती है और बिन्दु 'ब' पर मिलती है।
ज-झ	रेखा मौजा घाटनीमा और नीमाकला की साझी सीमा के साथ साथ मौजा घाटनीमा के प्लाट संख्यांक 94 के बीच से होकर, मौजा घाटनीमा और नीमाकला की साझी सीमा के साथ-साथ, मौजा चितरकोटी के प्लाट संख्यांक 328, 329 की उत्तरी सीमा और 430 की पूर्वी और उत्तरी सीमा से होकर जाती है और बिन्दु 'झ' पर मिलती है।	ड-ण	रेखा मौजा तैतारिया और छोटा सिमरा के बीच साझी सीमा के साथ साथ मौजा तैतारिया (31) के प्लाट संख्यांक 64, 63, 61 की उत्तरी सीमा, 119, 122 की पश्चिमी सीमा, 125 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा, 135 के बीच से होकर, 177 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा, 172, 174 की उत्तरी सीमा, 168 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा और मौजा तैतारिया (709) के 160 की पश्चिमी सीमा से होकर जाती है और बिन्दु 'ण' पर मिलती है।	
झ-ञ	रेखा मौजा चितरकोटी के प्लाट संख्यांक 334, 449, 338, 274 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ 275 की उत्तरी और पूर्वी सीमा, 276 की पूर्वी सीमा, 277 और 315 की दक्षिणी सीमा से होकर जाती है और बिन्दु 'ञ' पर मिलती है।	ण-न	रेखा मौजा धनकुर्दा और तैतारिया (709) के बीच साझी सीमा के साथ-साथ मौजा धनकुर्दा के प्लाट संख्यांक 44 की पूर्वी और उत्तरी सीमा, प्लाट संख्यांक 43, 39, 37, 38, की उत्तरी सीमा, 22 के बीच से होकर, 16, 20, 21 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ मौजा महागमा के 176 की उत्तरी सीमा से होकर जाती है और बिन्दु 'त' पर मिलती है।	
ञ-ट	रेखा मौजा चितरकोटी के प्लाट संख्यांक 315, 277, 278, 276, 273, 338 और 339 के बीच से होकर जाती है और बिन्दु 'ट' पर मिलती है।	न-थ	रेखा मौजा महागमा के प्लाट संख्यांक 176 के बीच से होकर मौजा धनकुर्दा के 22, 23, 25, 26, 33, 34, 101, 100, 109, 116 और 115 से होकर जाती है और बिन्दु 'थ' पर मिलती है।	
ट-ठ	रेखा मौजा चितरकोटी के प्लाट संख्यांक 340, 348, 349, 361, 367, 368, 405, 406, 400, 396, 397, 414, 417, और 423 के बीच से होकर, चितरकोटी और केदुघा, केदुघा और बागजोरी केदुघा और केदुघाकिटा के बीच साझी सीमा के साथ-साथ मौजा केदुघाकिटा के प्लाट संख्यांक 8 और 7 के बीच से होकर, मौजा प्रकासनी के प्लाट संख्यांक 16, 21, 30, 31, 32 और 63 के बीच से होकर जाती है और बिन्दु 'ठ' पर मिलती है।	थ-द	रेखा मौजा धनकुर्दा के प्लाट संख्यांक 115 और 114 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ मौजा बाँखिया कुर्मी-फिट के 53 की पश्चिमी सीमा, 52 की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा, 47 और 46 की पश्चिमी सीमा, 44 की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा, 90, 95, 96, 97, 98, 115, और 113, की दक्षिणी सीमा, 112, 109, 107 और 108 की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा मौजा रबियाडीह (संताली) के प्लाट संख्यांक 3, 8, 9, 12, 42 की दक्षिणी सीमा 184 के बीच से होकर, 194 और 195 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'द' पर मिलती है।	
ठ-ड	रेखा मौजा प्रकासनी के प्लाट संख्यांक 62 की उत्तरी सीमा, 33, 34, 37 की पूर्वी सीमा, 30 की दक्षिणी सीमा, के साथ-साथ, मौजा केदुघा किटा और प्रकासनी के बीच साझी सीमा, मौजा केदुघा के 30, 39 की पूर्वी सीमा, 38, 33, 53 की दक्षिणी सीमा, 79 के बीच से होकर, 79, 81 की दक्षिणी सीमा के साथ साथ 80 की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा होकर जाती है और बिन्दु 'ड' पर मिलती है।	द-ध	रेखा मौजा रबियाडीह (संताली) और तैतारिया की साझी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ध' पर मिलती है।	
	रेखा मौजा केदुघा और छोटा सिमरा के बीच साझी सीमा के साथ-साथ, मौजा छोटा सिमरा के प्लाट संख्यांक 53 की दक्षिणी सीमा, 65, 64 की पश्चिमी सीमा, 61 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा, 330 की उत्तरी सीमा, 332, 456, 455 की उत्तरी और पश्चिमी सीमा, 454 की पश्चिमी सीमा, 365 की उत्तरी और पश्चिमी	ध-क	रेखा मौजा तैतारिया और कुमरिया की साझी सीमा के साथ साथ जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।	

[फा० सं० 19 (26)/80-सी०एल०]

पी० के० जाहिनी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 14/15th January, 1981

S.O. 28(E) :—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 134(E) dated the 3rd March, 1980 under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid, and after consulting the Government of Bihar, is satisfied that the lands measuring 1230 acres (approximately) or 497.76 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 1230 acres (approximately) or 497.76 hectares (approximately) described in the said Schedule are hereby acquired.

2. The plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Dumka (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Director (Corporate Planning and Projects), Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office—Dishergarh, District—Burdwan (West Bengal).

SCHEDULE

BLOCK 'A'

RAJMAHAL COALFIELDS

SUB-BLOCK-A I

Drawing No. 1R/1909

Dated : 8-4-1980

(Showing lands acquired)

Sl. No.	Mouza (Village)	Thana No.	Police Station (Thana)	Distt. Area	Remarks
1.	Kendua	30	Boarijor Santhal (Bungalow Pargana Simra-1)		Part
2.	Tetaria	31	—do— —do—		Part
3.	Bara Simra	33	—do— —do—		Part
4.	Chhota Simra	34	—do— —do—		Part
5.	Ghat Simra	35	—do— —do—		Part
6.	Suarmari	36	—do— —do—		Part
7.	Ghat Nima	37	—do— —do—		Part
8.	Chitarkoti	38	—do— —do—		Part
9.	Nima Kalan	41	—do— —do—		Part
10.	Hijukita	42	—do— —do—		Part
11.	Lalmatia	43	—do— —do—		Part
12.	Dhankurda	697	Mahagama —do—		Part
13.	Mahagama	700	—do— —do—		Part
14.	Akasni	705	—do— —do—		Part
15.	Kenduakita	706	—do— —do—		Part
		707			
16.	Tetaria	709	—do— —do—		Part
17.	Lakrabank	710	—do— —do—		Full
18.	Baliaghat	711	—do— —do—		Full
19.	Balia Kurmikita	712	—do— —do—		Part
20.	Rabiadih (Santali)	713	—do— —do—		Part

Total Area—1230 acres
(approximately)

OR

497.76 hectares (approximately).

1. Plot numbers acquired in mouza Kendua : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/220, 38/221, 38/222, 39, 40, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 and 81.

2. Plot numbers acquired in mouza Tetaria : 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74/268, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 90/265, 90/266, 91, 94, 109(P), 139, 140, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 218/267, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 and 264.

3. Plot numbers acquired in mouza Bara Simra : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83/1044, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 339/1045, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425(P), 434, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 678, 679, 683, 684, 687(P), 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 922/1047, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 950, 951, 952, 953, 972, 973, 974, 975, 976, 978, 979, 980, 981, 981/1043, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1033, 1034, 1035 and 1036.

4. Plot numbers acquired in mouza Chhota Simra : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 123, 124, 125, 126, 127, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 165, 166, 169, 170, 172, 173, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 193(P), 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 364, 365, 366, 367, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 472, 473, 474, 475, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 552, 553, 660, 661, 693, and 694

5. Plot numbers acquired in mouza Ghat Simra : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/148, 29/154, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/152, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 and 142.

6. Plot numbers acquired in mouza Saarmiri : 1(P), 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 and 281.

7. Plot numbers acquired in mouza Ghat Nima : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/128, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 85, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 and 129(P).

8. Plot numbers acquired in mouza Chitarkoti : 273(P), 274, 275, 276(P), 277(P), 278(P), 315(P), 328, 329, 334, 334/449, 335, 336, 337, 338(P), 339(P), 340(P), 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348(P), 349(P), 361(P), 367(P), 368(P), 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 376/448, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396(P), 397(P), 400(P), 401, 402, 403, 404, 405(P), 406(P), 414(P), 415, 416, 417(P), 423(P), 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 and 446.

9. Plot numbers acquired in mouza Nima Kalan : 13, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90(P), 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 125(P), 126, 128(P), 128/756, 129(P), 130(P), 159(P), 160(P), 161, 162, 163, 164, 165(P), 168(P), 169(P), 170(P), 171(P), 172(P), 173, 174, 175, 176, 177,

178(P), 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 262, 263, 265, 266, 271, 274, 275, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 348/757, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 364(P), 398(P), 401, 402, 403, 404, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581(P), 582(P), 583(P), 584(P), 593(P), 618(P), 620(P), 621(P), 622, 623, 624, 625(P), 626(P), 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 646/760, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 671/755, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 686/762, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698(P), 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713(P), 715(P), 732(P), 735(P), 736(P), 737(P), 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 752 and 753.

10. Plot numbers acquired in mouza Hujakita : 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 161/607, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 424, 426, 427, 428, 429, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605 and 606

11. Plot numbers acquired in mouza Lalmatia : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 98, 101 and 102.

12. Plot numbers acquired in mouza Dhankurda : 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22(P), 23(P), 25(P), 26(P), 33(P), 34(P), 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100(P), 101(P), 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109(P), 110, 111, 112, 113, 114, 115(P) and 116(P).

13. Plot number acquired in mouza Mahagama : 176(Part).

14. Plot numbers acquired in mouza Akasni : 16(P), 17, 18, 19, 20, 21(P), 30(P), 31(P), 32(P), 33, 34, 35, 36, 37, and 63(P).

15. Plot numbers acquired in mouza Kenduakita : 7(Part) and 8(Part).

16. Plot numbers acquired in mouza Tataria : 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135(P), 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224 and 225.

17. Plot numbers acquired in mouza Lakrabank : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 and 44.

18. Plot numbers acquired in mouza Baliaghat : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18.

19. Plot numbers acquired in mouza Belia Kurnikita : 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 and 115.

20. Plot numbers acquired in mouza Rabiadih (Santali) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 184(P), 194 and 195.

A — B Line passes along the common boundary between Mouzas Tetaria and Paharpur, Tetaria and Chota Simra, along eastern boundary of Plot No. 694, of mouza Chota Simra and meets at point 'B'.

B — C Line passes along the southern boundary of plot No. 661 of mouza Chota Simra, southern boundary of plot No. 1036, western and southern boundary, of 1034 and 1033, southern boundary, of 1035, southern and eastern boundary of 1029, eastern boundary of 1028, western boundary of 1024 and 1027, western and southern boundary of 1025, southern and eastern boundary of 978, eastern boundary of 979, southern and eastern boundary, of 976, southern boundary of 972, 975, 938, western and southern boundary of 953 and 950 of mouza Bara Simra and meets at point 'C'.

C — D

Line passes along the western and southe boundary of plot no. 948, eastern boundary of 947, 946, 948, 947, 945 through 687 along southern boundary of 686, eastern boundary of 683, 679, eastern and northern boundary of 678, 499, northern boundary of 498, 501, 502 and 493, southern and western boundary of 505, western boundary of 506, northern boundary of 489, 488, 486, eastern and northern boundary of 462, eastern boundary of 453, 437, 439, eastern and northern boundary of 434, eastern boundary of 443, across 425, eastern boundary of 424, southern and eastern boundary, of 570, eastern boundary of 416, 414, 415, 412, 347, 349, 350, 351, along common boundary between mouza Hijukita and Bara Simra and meets at point 'D'.

D—E

Line passes along the common boundary between mouzas Hijukita and Rangamatia, Rangamatia and Lalmatia, southern, western and northern boundary of Plot No. 77 of mouza Lalmatia, again along common boundary between mouzas Lalmatia and Rangamatia and meets at point 'E'.

E—F

Line passes along the southern, eastern and northern boundary of plot no. 76, eastern boundary of 8, through 8, along western boundary of 8 of mouza Lalmatia common boundary between mouzas Lalmatia and Nimakalan and meets at point 'F'.

F—G

Line passes through plot nos. 732, 736, 735, 715, 737, 713, 618, 698, 626, 620, 625, 621, 598, 584, 583, 582, 581, 159, 160, 165, 172, 168, 171, 169, 170, 130, 129, 128 and 125 of mouza Nimakalan and meets at point 'G'.

G—H

Line passes along the western boundary of plot No. 125, northern boundary of 118, northern western and southern boundary of 117, western boundary of 115, northern boundary of 13, western boundary of 13, 114, 113, 112, 111 of mouza Nimakalan, western boundary of 8, 10, western and southern boundary of 13, western boundary of 128, 16, 19, western and southern boundary of 20, 21, through 129 and along western boundary of 85 of mouza Ghat Nima and meets at point 'H'.

H—I

Line passes along the common boundary of mouzas Ghat Nima and Nima Kalan, through plot No. 94 of mouza Ghat Nima, along, common boundary of mouzas Ghat Nima and Nima Kalan northern boundary of plot Nos. 328, 329, eastern and northern boundary of 430 of mouza Chitarkoti and meets at point 'I'.

I—J

Line passes along the eastern boundary of plot nos. 334, 449, 338, 274, southern and eastern boundary of 275, eastern boundary of 276, southern boundary of 277 and 315 of mouza Chitarkoti and meets at point 'J'.

J—K

Line passes through plot nos. 315, 277, 278, 276, 273, 338 and 339 of mouza Chitarkoti and meets at point 'K'.

- K—I . .** Line passes through plot nos. 340, 348, 349, 361, 367, 368, 405, 406, 400, 396, 397, 414, 417 and 423 of mouza Chitarkoti, along the common boundary between Chitarkoti and Kendua, between Kendua and Bagjori, between Kendua and Kenduakita, through plot nos. 8 and 7 of mouza Kenduakita through 16, 21, 30, 31, 32 and 63 of mouza Akashni and meets at point 'L'.
- L—M .** Line passes along the northern boundary of plot No. 62, eastern boundary of 33, 34, 37 southern boundary of 2 of mouza Akashni, common boundary between mouzas Kendua Kita and Akashni, along eastern boundary of 40, 39, southern boundary of 38, 33, 53, through 79 along southern boundary of 79, 81, western and southern boundary of 80 of mouza Kendua and meets at point 'M'.
- M—N** Line passes along the common boundary between mouzas Kendua and Chota Simra, along the southern boundary of plot no. 53, western boundary of 65, 64, northern and western boundary of 61, northern boundary of 330, northern and western boundary of 332, 456, 455, western boundary of 454, northern and western boundary of 365, western boundary of 364, 366, northern and western boundary of 391, western boundary of 390, northern boundary of 389, northern and western boundary of 377, northern boundary of 378 of mouza Chota Simra and meets at point 'N'.
- N—O** Line passes along the common boundary between mouzas Tetaria, and Chota Simra, northern boundary of plot Nos. 64, 63, 61 of mouza Tetaria (31), western boundary of 119, 122, northern and western boundary of 125, through 135, northern and western boundary of 177, northern boundary of 172, 174, northern and western boundary of 168 and western boundary of 169 of mouza Tetaria (709) and meets at point 'O'.
- O—P . .** Line passes along the common boundary between mouzas Dhankurda and Tetaria (709), eastern and northern boundary of plot no. 44, northern boundary of plot nos. 43, 42, 39, 37, 38, through 22, along northern boundary of 16, 20 and 21 of mouza Dhankurda, northern boundary of 176 of mouza Mahagama and meets at point 'P'.
- P—Q . .** Line passes through plot nos. 176 of mouza Mahagama, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 101, 100, 109, 116 and 115 of mouza Dhankurda and meets at point 'Q'.
- Q—R . .** Line passes along the southern boundary of plot nos. 115 and 114 of mouza Dhankurda, western boundary of 53, western and southern boundary of 52, western boundary of 47 and 46, western and southern boundary of 44, southern boundary of 90, 95, 96, 97, 98, 115, and 113, western and southern boundary of 112, 109, 107 and 108 of mouza Balia—Kurmikita, southern boundary of plot no. 3, 8, 9, 12, 42, through 184, along southern boundary of 194 and 195 of mouza Rabadih (Santali) and meets at point 'R'.
- R—S . .** Line passes along the common boundary between mouzas Rabadih (Santali) and Tetaria and meets at point 'S'.
- S—A . .** Line passes along the common boundary between mouzas Tetaria and Dumeria and meets at the starting point 'A'.

[No. 19(26)/80-CL]

P. K. LAHIRI, Jr. Secy.